५१ ०१ २०१० (३ २६ ५१)

विदेह

१.

२.

२.१.

२.२.

२.३.

२.४.

२.५.१.

२.

१२००

२.

३.

११.

१२.

१३.

१४.

[illegible]

१६: [illegible]

१७: [illegible]

१८: [illegible]

१९: [illegible] ११०० [illegible]

३१४३ ([illegible] ४+४३: [illegible]

२०: [illegible]

२१: [illegible]

२२: [illegible]

[illegible]

२३॰ [illegible]

२४॰ [illegible]

२५॰ [illegible]

२६॰ [illegible]

२७॰ [illegible]

२८॰ [illegible]

२९॰ [illegible]

३०॰ [illegible]

३१: [illegible]

३२: [illegible]

३३: [illegible] य़ [illegible]

३४: [illegible]

३५: [illegible]

३६: [illegible]

३७: [illegible]

३८: [illegible]

२३–३०

१९७३–१९८७)

१९७४

१९७३

१८

१९४०

१९३०

१९१७

२

ऽ

२

३ः [illegible]

३ः१ः [illegible]

३ः२ः [illegible]

३ः३ः [illegible]

३ः४ः१ः [illegible]

३ः५ः१ः [illegible]

३ः६ः१ः [illegible]

३ः७ः१ः [illegible]

३ः८ः१ः [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

⠺⠕⠗ ⠏⠗ ⠓⠜⠎⠅ ⠏⠜⠞⠗ ⠗⠑⠓

⠛⠜⠇ ⠞⠗ ⠏⠜⠝ ⠡⠌ ⠲

⠍⠜◌⠹ ⠏⠗ ⠮⠜⠝ ⠡⠌ ⠲⠲

⠜◌⠨⠊ ⠏⠗ ⠇⠜⠛⠇ ⠇⠜⠚⠅ ⠃⠕⠴

⠣⠕⠣ ⠎◌⠞⠜⠅⠽ ⠎⠕⠴⠑ ⠎⠕⠴

⠇⠟⠈⠽ ⠨⠗⠊⠓⠜⠝ ⠡⠌ ⠲

⠍⠜◌⠹ ⠏⠗ ⠮⠜⠝ ⠡⠌ ⠲⠲

⠘⠅⠈⠞ ⠗⠓⠇⠌ ⠍⠰⠙⠊⠗ ⠅⠑◌⠴⠕⠇⠊

⠛⠑⠇⠌ ⠋⠳ ⠙⠳ ⠩⠊⠧ ⠜⠎⠝ ⠫⠕⠇⠊

⠁⠘⠽ ⠧⠗⠙⠜⠝ ⠡⠌

⠍⠜◌⠹ ⠏⠗ ⠮⠜⠝ ⠡⠌ ⠲

⠧⠊⠽⠕⠛⠅ ⠧⠔⠞⠇ ⠅⠜⠗⠔ ⠗⠌⠝

⠚⠥⠻⠜⠽⠇ ⠜⠊ ⠍⠥⠻⠜⠽⠇ ⠝⠌⠝

⠛⠛⠝ ⠍⠑ ⠉⠜⠝ ⠡⠌

⠍⠜◌⠹ ⠏⠗ ⠮⠜⠝ ⠡⠌ ⠲⠲

⠅⠜⠾⠊ ⠅⠂ ⠍⠜⠇ ⠘⠕⠛ ⠅⠑⠗ ⠨⠑⠞

⠃⠜⠝⠈⠓⠊ ⠅⠂ ⠃⠕⠴ ⠉⠇⠇⠊ ⠎⠍⠧⠑⠞

⠛⠍⠜⠛⠍ ⠏⠈⠗⠜⠼ ⠡⠌ ⠲

⠍⠜◌⠹ ⠏⠗ ⠮⠜⠝ ⠡⠌ ⠲⠲

⠧⠙⠝ ⠏⠗ ⠁⠝⠥⠉⠊⠞ ⠁⠇⠥⠏⠊⠞ ⠙⠐⠗⠯⠈⠾⠊

⠉⠗⠼ ⠏⠗ ⠅⠗⠳ ⠎⠊⠝⠑⠓⠅ ⠙⠐⠗⠯⠈⠾⠊

⠑⠞⠽ ⠃⠛⠧⠜⠝ ⠡⠌ ⠲

⠍⠜◌⠹ ⠏⠗ ⠮⠜⠝ ⠡⠌ ⠲⠲

⠓⠑ ⠉⠗⠂⠗⠅ ⠉⠰⠫⠔ ⠮⠂⠗⠅ ⠙⠑⠧⠊

⠙⠑⠩ ⠃⠿⠊ ⠗⠓⠇ ⠁⠓⠜◌⠅⠑◌⠎⠑⠧⠊

⠍⠕◌⠡ ⠏⠗ ⠩⠜⠝ ⠡⠌ ⠲

⠍⠜◌⠹ ⠏⠗ ⠮⠜⠝ ⠡⠌ ⠲⠲

⠃⠥⠐⠻⠜⠗⠔ ⠍⠑ ⠣⠔⠐⠻⠜⠗⠔

⠃⠥⠐⠻⠜⠗⠔ ⠍⠑ ⠔ ⠣⠔ ⠅⠔

⠑⠅⠗⠜ ⠅⠓⠊⠽⠪ ⠫⠜⠇⠫⠜ ⠐⠻⠜⠗⠔ ⠲⠲

⠧⠗⠙ ⠚⠥⠜ ⠅⠂ ⠓⠜◌⠖⠊ ⠗⠓⠇ ⠡⠹⠊

⠉⠍⠑⠗ ⠇⠑⠾⠈⠾ ⠛⠜⠫⠔ ⠲⠲

⠃⠥⠝⠇⠝⠊ ⠛⠓⠥⠍⠅ ⠇⠑⠾ ⠃⠑⠗⠜⠊⠾⠔

⠙⠂ ⠎⠅⠇⠜⠓ ⠅⠜⠙ ⠝⠓⠊ ⠫⠜⠊⠾⠔

⠙⠜⠝⠜ ⠃⠑⠛⠜⠝⠜ ⠃⠑⠇⠝⠊

⠹⠑⠈⠗⠎⠗ ⠏⠗ ⠉⠌⠅⠇ ⠝⠜⠗⠔ ⠲⠲

२

१॰ [illegible]

२॰ [illegible]

१

[illegible]

२

[illegible]

१

[illegible]

२

२ ः

२

३

२

३

१

२

३

४

॥ २२ ॥

ॐ ॐ

॥

⠲ ⠅⠗⠊⠞⠹⠊ ⠅⠗⠞⠹⠊

⠲ ⠏⠓⠥⠄⠉⠊ ⠏⠓⠥⠄⠉

⠲ ⠗⠜⠅⠇⠝⠈⠒⠊ ⠗⠅⠇⠝⠈⠒⠊

⠲ ⠇⠛⠇⠝⠈⠒⠊ ⠇⠜⠛⠇⠝⠈⠒⠊

⠲ ⠎⠥⠝⠊ ⠥⠉⠈⠉⠜⠗⠼ ⠎⠥⠊⠝

⠲ ⠁⠡⠊ ⠥⠉⠈⠉⠜⠗⠼ ⠁⠊⠡

⠲ ⠑⠇⠹⠊ ⠛⠑⠇⠹⠊

⠲ ⠃⠊⠞⠕⠝⠑ ⠃⠊⠞⠑⠝⠑

⠲ ⠅⠗⠃⠕⠇⠝⠈⠓⠊ ⠅⠗⠑⠇⠨⠊⠝⠈⠓

⠲ ⠅⠗⠑⠇⠝⠈⠓⠊

⠲ ⠜⠅⠊ ⠅⠊

⠲ ⠏⠓⠥⠄⠉⠊ ⠏⠓⠥⠄⠉

⠲ ⠚⠗⠜⠽ ⠚⠗⠜⠑ ⠚⠗⠜/ ⠜⠛⠊ ⠇⠛⠜

⠲ ⠎⠑ ⠎⠑/

⠲ ⠓⠜⠄ ⠍⠑ ⠓⠜⠄ ⠓⠜⠄⠍⠑ ⠓⠜⠄ ⠧⠊⠘⠅ ⠈⠞⠈⠞⠊⠍⠑ ⠓⠾⠜ ⠅⠑

⠲ ⠖⠑⠇ ⠖⠌⠇

⠲ ⠖⠊⠇ ⠖⠌⠇

⠲ ⠓⠕⠽⠞⠝⠈⠓⠊ ⠓⠕⠑⠞⠝⠈⠓⠊ ⠓⠑⠞⠝⠈⠓⠊

⠲ ⠓⠜⠹ ⠍⠾⠊⠜⠽⠃ ⠓⠜⠹ ⠍⠾⠊⠽⠜⠃⠽ ⠓⠜⠹ ⠍⠾⠊⠜⠑⠃

⠲ ⠖⠑⠅⠜ ⠖⠑⠰⠅⠜

⠲ ⠙⠑⠨⠜⠑ ⠙⠑⠨⠜/

⠲ ⠙⠑⠨⠜⠽ ⠙⠑⠨⠜/

⠲ ⠎⠞⠈⠞⠗⠊ ⠎⠞⠈⠞⠗

⠲ ⠎⠜⠓⠑⠃ ⠎⠜⠓⠃

⠲⠛⠑⠇⠌⠝⠈⠓ ⠛⠑⠇⠝⠈⠓⠊

२३२

२३३

२३४

२३५

२३६

२३७

२३८

२३९

२४०

२४१

२४२

२४३

२४४

२४५

२४६

२४७

२४८

२४९

२५०

२५१

२५२

२५३

२३४ः

२३५ः

२३६ः

२३७ः

२३८ः

२३९ः

२४०ः

२४१ः

२४२ः

२४३ः

२४४ः

२४५ः

२४६ः

२४७ः

२४८ः

२४९ः

२५०ः

२५१ः

२५२ः

२५३ः

२७४ः [illegible]

२७५ः [illegible]

२७६ः [illegible]

२७७ः [illegible]

२७८ः [illegible]

२७९ः [illegible]

२८०ः [illegible]

२८१ः [illegible]

२८२ः [illegible]

२८३ः [illegible]

२८४ः [illegible]

२८५ः [illegible]

२८६ः [illegible]

२८७ः [illegible]

२८८ः [illegible]

२८९ः [illegible]

२९०ः [illegible]

२९१ः [illegible]

२९२ः [illegible]

२९३ः [illegible]

२७४

२७५

२७६

२७७

२७८

२७९

३००

३०१

३०२

३०३

३०४

३०५

३०६

३०७

३०८

३०९

३१०

३११

३१२

३१३

३१४

३१५

३१६

३१७

२


३

४

ऐ ओ

११/+/१७ ११/+/१७

११/०+/१७

ः ,
ः
ः
ः
ः
ः ,
ः
, ः
,
ः
ः
–
ः
ः
ः
ः

–

–

–

–

’

२३

२

३ ऑ

४

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६:

१७:

१८:

१९:

२०:

२१:

२२:

२३:

२४:

२५:

२७

७१२

⠓⠊⠆⠙⠔ ⠅⠓⠜⠝⠔ ⠗⠉⠝⠜ ⠪⠗ ⠏⠗⠊⠎⠈⠹⠊⠞⠊ ⠎⠥⠗⠑⠝⠈⠙⠈⠗ ⠉⠪⠮⠗⠔
⠎⠰⠏⠜⠙⠨ ⠥⠙⠽⠩⠰⠨⠗

⠎⠜⠮⠜⠗⠼ ⠅⠔ ⠏⠈⠗⠞⠊⠱⠜ ⠈⠰⠮⠑⠗⠑ ⠎⠑ ⠎⠜⠟⠜⠞⠈⠨⠜⠗ ⠎⠥⠗⠑⠝⠈⠙⠈⠗
⠉⠪⠮⠗⠔

⠎⠰⠏⠜⠙⠨ ⠥⠙⠽⠩⠰⠨⠗

⠃⠜⠙⠸ ⠎⠗⠅⠜⠗ ⠚⠔⠧⠝ ⠪⠗ ⠗⠰⠛⠍⠰⠉ ⠈⠩⠕⠸ ⠃⠪⠍⠊⠅

⠃⠜⠇⠅ ⠐⠗⠿⠈⠼ ⠃⠾⠈ ⠾ ⠪⠗ ⠜⠮⠥⠝⠊⠨ ⠓⠊⠆⠙⠔ ⠜⠇⠕⠉⠝⠜ ⠅⠜ ⠜⠗⠰⠘ ⠈ ⠃⠊⠿⠑⠨
⠗⠪⠩⠝

⠎⠜⠍⠜⠚⠊⠅ ⠉⠊⠰⠞⠝

⠅⠊⠎⠜⠝ ⠪⠗ ⠅⠊⠎⠜⠝⠔ ⠁⠝⠊⠇ ⠉⠍⠫⠊य़⠜

⠩⠊⠟⠅ ⠅⠔ ⠫⠜⠽⠗⠔ ⠽⠕⠛⠑⠝⠈⠙⠈⠗

⠥⠏⠝⠈⠽⠜⠎

⠍⠜⠊⠅ ⠈⠗⠕⠎⠈⠅⠕⠏ ⠗⠜⠚⠑⠝⠈⠙⠈⠗ ⠅⠥⠍⠜⠗ ⠅⠝⠪⠚⠊⠽⠜
⠏⠐⠗⠹⠈⠧⠔⠏⠥⠞⠈⠗ ⠇⠇⠊⠞ ⠁⠝⠥⠧⠜⠙ ⠍⠓⠜⠏⠈⠗⠅⠜⠩
⠍⠕⠻ ⠏⠗ ⠮⠳⠍⠨⠑⠞⠥ ⠁⠝⠥⠧⠜⠙ ⠎⠈⠧⠗⠈⠼⠜
⠍⠕⠇⠜⠗⠳⠵ ⠏⠊⠽⠜⠗ ⠇⠜ ⠍⠳⠗ ⠁⠝⠥⠧⠜⠙ ⠎⠥⠝⠔⠞⠜ ⠚⠌⠝

⠅⠓⠜⠝⠔ ⠎⠰⠛⠈⠗⠓

४/३:

७:

३०/- (

२०/-

१/+/७:

४३०

२००७

१०:

११:

१२:

२०१०

२००/-

२०१०-११

३३०/-

२०१०-१२

३००/-

२०१०-१३

१३०/-

२००९

३०००/-

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

[illegible]

२३ [illegible]

२६ [illegible]

२७ [illegible]

२८ [illegible]

२९ [illegible]

३० [illegible]

३१ [illegible]

३२ [illegible]

३३ [illegible]

३४ [illegible]

३५ [illegible]

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

४६

४७

[illegible]

४८ [illegible]

४९ [illegible]

५० [illegible]

५१ [illegible]

५२ [illegible]

५३ [illegible]

५४ [illegible]

५५ [illegible]

५६ [illegible]

५७ [illegible]

५८ [illegible]

५९ [illegible]

७०

७१

७२

७३

७४

७५

७६

७७

७८

७९

८०